

Part-A

<p>1. For the purpose of surcharge, international articles are divided into how many groups?</p> <p>A. Eight B. Six C. Four D. None of the above</p>	<p>1. सरचार्ज की दृष्टि के अंतर्राष्ट्रीय डाक को बांटा गया है ?</p> <p>A. आठ B. छः C. चार D. दो उपरोक्त में से कोई नहीं</p>
<p>2. In which year India joined Asian Pacific Postal Union (APPU) ?</p> <p>A. 1953 B. 1963 C. 1973 D. None of the above</p>	<p>2. भारत एशियाई पसिफ़िक पोस्टल यूनियन (ए पी पी यू) में किस वर्ष शामिल हुआ ?</p> <p>A. 1953 B. 1963 C. 1973 D. उपरोक्त में से कोई नहीं</p>
<p>3. Which among following is not a special feature of Postal Life Insurance(PLI)?</p> <p>A. Income tax rebate B. Loan facility C. Nomination D. Low Bonus</p>	<p>3. निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा(पी एल आई) की विशेषता नहीं है ?</p> <p>A. आयकर छूट B. लोन सुविधा C. नॉमिनेशन D. कम बोनस</p>
<p>4. Which of the following term is not associated with "Philately"?</p> <p>A. Special cover B. First day cover C. National Saving Certificates D. Miniature sheet</p>	<p>4. निम्नलिखित में से किसका सम्बन्ध फिलाटेली से नहीं है ?</p> <p>A. स्पेशल कवर B. फर्स्ट डे कवर C. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट D. मिनिएचर शीट</p>

5. Postal Life Insurance (PLI) introduced in which year?

- A. 1824
- B. 1834
- C. 1844
- D. None of the above

5. डाक जीवन बीमा (पी एल आइ) का प्रारम्भ की गयी ?

- A. 1824
- B. 1834
- C. 1844
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

6. The maximum weight limit for transmission of Blind Literature through post office is how many Kilograms?

- A. 6 Kilograms
- B. 7 Kilograms
- C. 8 Kilograms
- D. None of the above

6. डाक घर से प्रेषित ब्लाइंड लिटरेचर की भार की अधिकतम सीमा कितनी किलोग्राम है?

- A. 6 किलोग्राम
- B. 7 किलोग्राम
- C. 8 किलोग्राम
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

7. A Poste Restante article (except value payable) is kept in the post office to which it is addressed for how many days?

- A. A period not exceeding one month.
- B. A period not exceeding two months.
- C. A period not exceeding three months
- D. None of the above

7. पोस्ट रेस्टॉन्टे आर्टिकल (वैल्यू पायबल को छोड़ कर) किसी डाक घर को प्रेषित होता है, डाक घर में कितने दिनों तक रखा जा सकता है ?

- A. एक माह से अनधिक दिन
- B. दो माह से अनधिक दिन
- C. तीन माह से अनधिक दिन
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

8. Following two statements be read carefully and choose the correct option given below.

Statement I: Post Box facilities are available in all Post Offices. ✓

Statement II: Post Box facilities are available free of cost. ✗

- A. Both statements are correct
- B. Both statements are incorrect
- C. Statement I is incorrect and Statement II is correct
- D. Statement I is correct and Statement II is incorrect

8. निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें।

कथन 1 : पोस्ट बॉक्स सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है।
कथन 2: पोस्ट बॉक्स सुविधा निशुल्क उपलब्ध है।

- A. दोनों कथन सही हैं।
- B. दोनों कथन गलत हैं।
- C. कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है।
- D. कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है।

9. Generally, stamps should be affixed at which place of the address side of an envelope.

- A. Left hand top corner
- B. Right hand top corner
- C. Left hand bottom corner
- D. Right hand bottom corner

9. सामान्यतः डाक टिकट का स्थान पर चिपकाया जाता है?

- A. बाएं तरफ ऊपर
- B. दाएं तरफ ऊपर
- C. बाएं तरफ निचे
- D. दाएं तरफ निचे

10. Following two statements be read carefully and choose the correct option given below.

Statement I: Revenue stamps can be used for payment of postage.

Statement II: Postage charges can, also, be paid by means of impressions of a franking machine.

- A. Both statements are correct
- B. Both statements are incorrect
- C. Statement I is incorrect and Statement II is correct
- D. Statement I is correct and Statement II is incorrect

10. निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव करें

कथन 1 : राजस्व टिकटों का उपयोग डाक भुगतान के लिए किया जा सकता है।

कथन 2 : डाक शुल्क का भुगतान फ्रान्किंग मशीन के छापों के माध्यम से भी किया जा सकता है।

- A. दोनों कथन सही हैं।
- B. दोनों कथन गलत हैं।
- C. कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है।
- D. कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है।

11. Post Offices are divided into how many classes?

- A. Four
- B. Five
- C. Seven
- D. None of the above

11. डाकघर को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है?

- A. चार
- B. पांच
- C. सात
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

12. The Head Quarters of North East Postal Circle is located in which of the following city?

- A. Kohima
- B. Imphal
- C. Aizawl
- D. Shilong

12. नार्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है?

- A. कोहिमा
- B. इम्फाल
- C. आइजॉल
- D. शिलॉंग

13. Terms "NSP-1 and NSP-2" are associated with which of the following?

- A. Network connectivity
- B. CSI updates
- C. SAP updates
- D. BI Dashboard

13. शब्द "एन एस पी -1" आर निम्नलिखित में से किस से सम्बंधित है ?

- A. नेटवर्क कनेक्टिविटी
- B. सी एस आई अपडेटेड
- C. सैप अपडेटेड
- D. बी आई डैशबोर्ड

14. "EMV" chip is used in which of the item?

- A. Network Switch
- B. RICT Device
- C. Bar code scanner
- D. None of the above

ATM

14. "ई एम् वी" चिप कहाँ प्रयुक्त होता है ?

- A. नेटवर्क स्विच
- B. आर आई सी टी डिवाइस
- C. बारकोड स्कैनर
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

15. "Any Time Anywhere Banking" is associated with?

- A. CBS
- B. TNF
- C. DCF
- D. RICT

15. "एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग" सम्बंधित

- A. सी बी एस
- B. टी एन एफ
- C. डी सी एफ
- D. आर आई सी टी

16. Data Centre Facility (DCF) started functioning in which year?

- A. 2013
- B. 2015
- C. 2017
- D. None of the above

16. डाटा सेण्टर फैसिलिटी (डी सी एफ) कार्य करना प्रारम्भ किया?

- A. 2013
- B. 2015
- C. 2017
- D. ~~2014~~

17. In IT Modernization project ATM service are covered under which vertical?

- A. CSI
- B. FSI
- C. DCF
- D. RH

17. आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के सेवाओं को किस आयाम में शामिल किया गया है?

- A. सी एस आई
- B. एफ एस आई
- C. डी सी एफ
- D. आर एच

18. What is the maximum number of International Reply Coupons that can be sold to an individual at a time?

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. None of the above

18. इंटरनेशनल रिप्लाय कूपन के अधिकतम सी व्यक्ति विशेष को एक समय में बिक्री की जा सकती है।

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

19. Which section of Customs Act 1962 empowers Custom Department to prohibit import of certain goods?

- A. Section 10
- B. Section 11
- C. Section 12
- D. Section 13

19. कस्टम एक्ट 1962 का कोन सा सेक्शन को कुछ मर्चें के आयात हेतु प्रतिबंधित करता है?

- A. सेक्शन 10
- B. सेक्शन 11
- C. सेक्शन 12
- D. सेक्शन 13

20. Printed Papers services in the foreign posts generally corresponds to which service of inland post?

- A. Book Packet
- B. Registered newspaper
- C. Periodicals
- D. None of the above

20. विदेशी डाक के प्रिंटेड पेपर्स सेवा का पोस्ट के किस सेवा से है?

- A. बुक पैकेट
- B. रजिस्टर्ड न्यूज़ पेपर
- C. पीरियोडिकल्स
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

21. The use of inland letter cards for addressing communication to foreign countries is permissible to which group of countries?

- A. Bhutan, Bangladesh and Nepal
- B. Sri Lanka, Maldives and Myanmar
- C. Pakistan, Afghanistan and Iran
- D. Thailand, Lao and Vietnam

21. निम्नलिखित कार्ड से पत्राचार मा...

- A. भूटान, बांग्लादेश और नेपाल
- B. श्री लंका, मालदीव और म्यांमार
- C. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान
- D. थाईलैंड, लाओ और वियतनाम

22. Custom Declaration Forms are used in which of the following activities?

- A. POSB operations
- B. PLI/RPLI operations
- C. International article bookings
- D. Philately activities

22. कस्टम डिक्लरेशन फॉर्म का प्रयोग किस गतिविधि में होता है ?

- A. पी ओ एस बी ऑपरेशन्स
- B. पी एल आई / आर पी एल आई ऑपरेशन्स
- C. अंतराष्ट्रीय डाक बुकिंग्स
- D. फिलाटेली गतिविधि

23. An Aerogram should not weigh more than how many grams?

- A. 2 grams
- B. 5 grams
- C. 7 grams
- D. None of the above

23. एरोग्राम का भार निर्मांकित में से कितने नहीं होना चाहिए ?

- A. 2 ग्राम
- B. 5 ग्राम
- C. 7 ग्राम
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

24. Examination and assessment of custom duty on inward foreign articles is performed in which office?

- A. Custom House Office
- B. Foreign Post Office
- C. General Post Office
- D. Export/Import office

24. अंतर्गमन विदेशी डाक के कस्टम ड्यूटी निर्धारण का कार्य किस कार्यालय में किया जाता है ?

- A. कस्टम हाउस ऑफिस
- B. फॉरेन पोस्ट ऑफिस
- C. जनरल पोस्ट ऑफिस
- D. निर्यात/आयात ऑफिस

25. For the purpose of fixing surcharges and combined charges on international articles, countries are divided into how many groups?

- A. Two
- B. Three
- C. Four
- D. None of the above

25. अंतराष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज एवं निर्धारण हेतु देशों को कितने समूहों में बांटा गया?

- A. दो
- B. तीन
- C. चार
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

26. Deen Dayal SPARSH Yojna is related to which segment/activity of India Post?

- A. Stamps
- B. Insurance
- C. Banking
- D. None of the above

26. दीन दयाल स्पर्श (SPARSH) योजना का सम्बन्ध पोस्ट के किस कार्य आयाम से है?

- A. स्टैम्प
- B. बीमा
- C. बैंकिंग
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

27. What is the maximum insurance cover (in Rs.) under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna(PMSBY)?

- A. 1 Lakh
- B. 2 Lakh
- C. 3 Lakh
- D. 4 Lakh

27. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत (रुपयों में) की अधिकतम सीमा क्या है?

- A. 1 लाख
- B. 2 लाख
- C. 3 लाख
- D. 4 लाख

28. In which year India Post Payments Bank (IPPB) was formally launched by Prime Minister of India?

- A. 2017
- B. 2019
- C. 2021
- D. None of the above

28. भारत के प्रधान मंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट बैंक का विधिवत उद्घाटन किया गया?

- A. 2017
- B. 2019
- C. 2021
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

29. The annual interest rate applicable on Public Provident Fund (PPF) for second quarter of FY 2024-25 is?

- A. 6.9%
- B. 7.1 %
- C. 7.4%
- D. 7.6%

29. वित्त वर्ष 2024-25 पर देय बा निधि, पी पी एफ(PPF) पर

- A. 6.9%
- B. 7.1%
- C. 7.4%
- D. 7.6%

30. From which year Department of Posts has offered Mobile Banking services to POSB customers?

- A. 2018
- B. 2019
- C. 2020
- D. None of the above

30. डाक विभाग के पी ओ एस बी ग्राहकों बैंकिंग सेवाएं किस वर्ष से प्रारम्भ की

- A. 2018
- B. 2019
- C. 2020
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

31. "Warehousing Service" is one of the feature of which services offered by India Post?

- A. E-Post
- B. Media Post
- C. Logistics Post
- D. Direct Post

31. वेयरहाउसिंग सेवा, इंडिया पोस्ट के किस विशेषता है?

- A. इ -पोस्ट
- B. मीडिया पोस्ट
- C. लॉजिस्टिक पोस्ट
- D. डायरेक्ट पोस्ट

32. Which of the following is not a feature of Speed Post?

- A. Insurance
- B. Compensation
- C. Cash on Delivery
- D. Weight limit of 99 kg

32. निम्नलिखित में कौन स्पीड पोस्ट की विशेषता

- A. बीमा
- B. प्रतिपूर्ति
- C. कैश ऑन डिलीवरी
- D. भार सीमा

33. Term "HFIRPT" is used in which of the following platform?

- A. Finacle
- B. Macmish
- C. CSI
- D. None of the above

33. शब्द "HFIRPT" किस प्लेटफॉर्म में प्रयुक्त है?

- A. फिनेक्ल
- B. मैकमिश
- C. सी एस आई
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

34. In reference with the IT Modernization project, the term "PMU" refers to?

- A. Project Management Unit
- B. Power Management Unit
- C. Pressure Measuring Unit
- D. Payment Method Updator

34. आई टी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में शब्द यू इंगित करता है

- A. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
- B. पावर मैनेजमेंट यूनिट
- C. प्रेशर मापन यूनिट
- D. पेमेंट मेथड अपडेटर

35. IT Modernization project has been divided into how many segments?

- A. Four
- B. Six
- C. Ten
- D. None of the above

35. आई टी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को कितने खण्डों में बांटा गया ?

- A. चार
- B. छह
- C. दस
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

36. In term "T-Code", alphabet T represents which of the following?

- A. Transaction
- B. Transfer
- C. Technology
- D. None of the above

36. शब्द "टी-कोड" में अक्षर टी क्या प्रदर्शित करता है?

- A. ट्रांसक्शन
- B. ट्रांसफर
- C. टेक्नोलॉजी
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

37. MAC binding is commonly used with reference to which segment of IT Modernization project ?

- A. NI
- B. FSI
- C. CSI
- D. CM

37. मैक बाइंडिंग आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के आयाम के सन्दर्भ में प्रयुक्त किया जाया है?

- A. एन आई
- B. एफ एस आई
- C. सी एस आई
- D. सी एम्

38. Mail department of Sorting Mail Office is head by which authority?

- A. Head Sorting Assistant
- B. Sorting Assistant
- C. Registration Sorting Assistant
- D. Parcel Sorting Assistant

38. साइर्टिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का मुखिया कौन होता है?

- A. हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट
- B. सॉर्टिंग असिस्टेंट
- C. रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट
- D. पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट

39. For what purpose the "Trial Notes" are used in International Mail transmission?

- A. To determine the most favourable route
- B. To determine the minimum postage
- C. To find out the missing articles
- D. To calculate the custom charge

39. अंतराष्ट्रीय डाक प्रचालन के सन्दर्भ में ट्रायल नोट्स का क्या प्रयोग है?

- A. सर्वाधिक मान्य रूट के निर्धारण हेतु
- B. न्यूनतम डाक शुल्क के निर्धारण हेतु
- C. गुम हुए डाक को खोजने हेतु
- D. कस्टम शुल्क की गणना हेतु

40. The Arab Postal Union, a restricted union has its headquarters in which city?

- A. Amman
- B. Bagdad
- C. Sana
- D. None of the above

40. अरब पोस्टल यूनियन जो एक प्रतिबंधित यूनियन है, मुख्यालय किस शहर में है ?

- A. अम्मान
- B. बगदाद
- C. सना
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

41. Which one is not part/department of Sorting Mail Office?

- A. Mail
- B. Sorting
- C. Registration
- D. Philately

41. निम्नलिखित में से कौन सॉर्टिंग मेल ऑफिस हिस्सा/विभाग नहीं है

- A. मेल
- B. सॉर्टिंग
- C. रजिस्ट्रेशन
- D. फिलाटेली

42. Metal Tokens are used by which category of official?

- A. Selected RMS Official
- B. Circle Office Official
- C. Regional Office Official
- D. Postal Division Official

42. मेटल टोकन किस श्रेणी के कर्मियों द्वारा प्रयुक्त होता है ?

- A. चयनित आर एम् एस कर्मियों द्वारा
- B. सर्किल ऑफिस कर्मियों द्वारा
- C. रीजनल ऑफिस कर्मियों द्वारा
- D. पोस्टल डिवीज़न कर्मियों द्वारा

43. Deduction /Non deduction of TDS in SCSS accounts has been clarified by which SB Order?

- A. SB Order 27/2021
- B. SB Order 37/2021
- C. SB Order 47/2021
- D. SB Order 57/2021

43. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (एस सी एस टी डी एस) के कटौती /अ कटौती को किस एस बी आर्डर द्वारा स्पष्ट किया गया?

- A. एस बी आर्डर 27/2021
- B. एस बी आर्डर 37/2021
- C. एस बी आर्डर 47/2021
- D. एस बी आर्डर 57/2021

44. "PM CARES for Children Scheme 2021" introduced vide which SB Order?

- A. SB Order 33/2021
- B. SB Order 43/2021
- C. SB Order 53/2021
- D. SB Order 63/2021

44. "पी एम् केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021" बी आर्डर के द्वारा लाया गया?

- A. एस बी आर्डर 33 /2021
- B. एस बी आर्डर 43 /2021
- C. एस बी आर्डर 53 /2021
- D. एस बी आर्डर 63 /2021

45. The movement of S.O. slip is from?

- A. Head Post Office to Sub Post Office
- B. Sub Post Office to Branch Post Office
- C. Sub Post Office to Head Post Office
- D. Branch Post Office to Sub Post Office

45. एस ओ स्लिप की गतिशीलता क्या है ?

- A. हेड पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस
- B. सब पोस्ट ऑफिस से ब्रांच पोस्ट ऑफिस
- C. सब पोस्ट ऑफिस से हेड पोस्ट ऑफिस
- D. ब्रांच पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस

46. What is the maximum limit for loose cash remittance between account office and its subordinate offices through departmental employee?

- A. Rs.15 Lakh
- B. Rs.10 Lakh
- C. Rs.5 Lakh
- D. Rs.2 Lakh

46. अकाउंट ऑफिस एवं इसके सबोर्डिनेट बीच विभागीय कर्मि द्वारा खुले कैश प्रचालन की सीमा क्या है ?

- A. 15 लाख रूपये
- B. 10 लाख रूपये
- C. 5 लाख रूपये
- D. 2 लाख रूपये

47. Which one of the following is not part/branch/department of a Head Post Office?

- A. Mail Branch
- B. Delivery Branch
- C. Sorting Branch
- D. Loan Branch

47. निम्नलिखित में से कोन हेड पोस्ट ऑफिस /शाखा/विभाग नहीं है ?

- A. मेल शाखा
- B. डिलीवरी शाखा
- C. सॉर्टिंग शाखा
- D. लोन शाखा

48. How many types of insurance schemes are offered under Rural Postal Life Insurance (RPLI)?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. None of the above

48. ग्रामीण डाक जीवन बीमा(RPLI) के अंतर्गत कि की बीमा स्कीम प्रदान की जाती है ?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

49. Philatelic Deposit Account (PDA) can be open with a minimum deposit of how much amount ?

- A. Rs 1000
- B. Rs 500
- C. Rs 300
- D. None of the above

49. फिलाटेलिक डिपोजिट अकाउंट न्यूनतम जमा धन राशि कितनी है ?

- A. 1000 रुपये
- B. 500 रुपये
- C. 300 रुपये
- D. उपरोक्त में से कोई

50. In which year Rural Postal Life Insurance (RPLI) was introduced?

- A. 1994
- B. 1995
- C. 1996
- D. 1997

50. ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी) से प्रारम्भ हुई ?

- A. 1994
- B. 1995
- C. 1996
- D. 1997

BODMAS

Part-B

51. Solve the following:
 $20+20 \times 20 \div 20$

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

$$20 + 20 \times 20 \div 20$$

51. निम्नांकित को हल करें?
 $20+20 \times 20 \div 20$

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

52. What will be final answer of following:-
 $5(10+15 \div 5 \times 4 - 2 \times 2)$

- A. 80
- B. 85
- C. 90
- D. 95

$$10 + \frac{3}{15} \div 5 \times 4 - 2 \times 2$$

$$10 + 3 \div 1 \times 4 - 2 \times 2$$

$$5(10 + 3 \div 4 - 4)$$

$$5(10 + \frac{3}{4} - 4)$$

$$\begin{array}{r} 121 \\ \times 5 \\ \hline 605 \end{array}$$

52. निम्नांकित का अंतिम उत्तर होगा?
 $5(10+15 \div 5 \times 4 - 2 \times 2)$

- A. 80
- B. 85
- C. 90
- D. 95

$$\begin{array}{r} 184 \\ \times 5 \\ \hline 920 \end{array}$$

53. Personal commitment to work hard and do one's very best is associated with which of the following?

- A. Confidentiality
- B. Empathy
- C. Work ethics
- D. Impartiality

53. कठिन परिश्रम और अपना समग्र निष्पादन के प्रति व्यक्ति संकल्प किस से सम्बंधित है?

- A. गोपनीयता
- B. सदभाव
- C. कार्य नैतिकता
- D. अभेदभाव

54. The total geographical area of Chhatisgarh is approximately?

- A. 1,35,194 sq km
- B. 2,35,194 sq km
- C. 3,35,194 sq km
- D. 4,35,194 sq km

54. छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है?

- A. 1,35,194 वर्ग कि.मी.
- B. 2,35,194 वर्ग कि.मी.
- C. 3,35,194 वर्ग कि.मी.
- D. 4,35,194 वर्ग कि.मी.

55. "Nagara" style is famous for which of the following activity?

- A. Temple architecture
- B. Classical music
- C. Indian painting
- D. Classical dance

55. "नागर" शैली किस गीतावाचक शैली के लिए प्रसिद्ध है?

- A. मंदिर स्थापत्य
- B. शास्त्रीय संगीत
- C. इंडियन पेंटिंग
- D. शास्त्रीय नृत्य

56. Famous classical dance "Kathakali" has its roots in which Indian state?

- A. Kerala
- B. Tamil Nadu
- C. Utter Pradesh
- D. Manipur

56. प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य " कथाकली " की जड़ें

- A. केरल
- B. तमिल नाडु
- C. उत्तर प्रदेश
- D. मणिपुर

57. Which one of the following was associated with "Indian National Army"?

- A. Bhagat Singh
- B. Subhash Chandra Bose
- C. Vinoba Bhave
- D. Mangal Pande

57. निम्नलिखित में से कौन "इंडियन नेशनल है?

- A. भगत सिंह
- B. सुभाष चंद्र बोस
- C. विनोबा भावे
- D. मंगल पण्डे

58. During Indian freedom struggle in which year the famous Quit India movement started?

- A. 1918
- B. 1921
- C. 1925
- D. 1942

58. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान चर्चित कब शुरू हुआ था?

- A. 1918
- B. 1921
- C. 1925
- D. 1942

59. Municipal Corporation is associated with which administrative set up?

- A. Rural area local bodies
- B. Hilly area administrative bodies
- C. Tribal area administrative bodies
- D. Urban area local bodies

59. म्युनिसिपल कारपोरेशन किस प्रशासनिक

- A. ग्रामीण क्षेत्र लोकल निकाय
- B. पहाड़ी क्षेत्र प्रशासनिक नि
- C. ट्राइबल क्षेत्र प्रशासनिक नि
- D. शहरी क्षेत्र लोकल निकाय

60. Who is the present Governor of Chhatisgarh ?

- A. Sh. Shiv Pratap Shukla ✓
- B. Sh. Satyadeo Narayan Arya ✓
- C. Lt. Gen. Gurmit Singh ✓
- D. None of the above

60. वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कोन

- A. श्री शिव प्रताप शुक्ल
- B. श्री सत्यदेव नारायण आर्य
- C. ले. जनरल गुरमीत सिंह
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

61. Which one of the following river not originates from Himalayas?

- A. Chenab
- B. Tapti
- C. Ravi
- D. Vyas

61. निम्नलिखित में से कोन सी नदी हिमालय है ?

- A. चेनाब
- B. ताप्ती
- C. रावी
- D. व्यास

62. Which one of the following state does not share its boundary with Chhatisgarh ?

- A. Uttar Pradesh
- B. Andhra Pradesh ✓
- C. Bihar
- D. Telangana

62. निम्नलिखित में से कोन राज्य की सीमा लगता है ?

- A. उत्तर प्रदेश
- B. आंध्र प्रदेश
- C. बिहार

63. The salary of 9 workers is Rs 27,000. What will be the salary of 4 workers?

- A. Rs.4000
- B. Rs. 9000
- C. Rs. 12000
- D. Rs. 15000

$$\begin{array}{r} 9 \rightarrow 27000 \\ 4 \rightarrow \end{array} \frac{27000 \times 4}{9} = 12000$$

63. 9 कर्मियों की सैलरी 27,000 रूपये है ? 4 कर्मियों की सैलरी क्या होगी ?

- A. 4000 रूपये
- B. 9000 रूपये
- C. 12000 रूपये
- D. 15000 रूपये

64. A marine ship covers a certain distance at a speed of 300 kmph in 7 hours. To cover the same distance in 4 hours, it must travel at a speed (kmph) of ?

- A. 520
- B. 525
- C. 530
- D. 535

$$\begin{aligned} D &= ST \\ D &= 300 \times 7 \\ &= 2100 \\ \frac{2100}{4} &= \end{aligned}$$

64. एक समुंद्री जहाज एक निश्चित दूरी 300 किलोमीटर से 7 घंटे में तय करता है। उसी निश्चित दूरी तो 4 घंटे में तय करने के लिए किस गति (किलोमीटर प्रति घंटा) से आगे बढ़ना होगा ?

- A. 520
- B. 525
- C. 530
- D. 535

$$\frac{300 \times 7}{4} = 525$$

65. A person crosses 800 meter bridge in 8 minutes. What is his speed in meter per minutes?

- A. 8
- B. 80
- C. 100
- D. 800

$$\begin{aligned} D &= ST \\ \frac{800}{8} &= S \end{aligned}$$

65. एक व्यक्ति 800 मीटर पुल को 8 मिनट में पार करता है। उस की गति मीटर प्रति मिनट में होगी ?

- A. 8
- B. 80
- C. 100
- D. 800

$$\begin{aligned} D &= ST \\ &= 800 \times 8 \\ &= 6400 \\ \frac{6400}{8} &= 800 \end{aligned}$$

66. A can do a bit of work in 10 days, which B alone can do in 15 days in . In how many days both cooperating can do it?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

$$\frac{10 \times 15}{10 + 15} = \frac{150}{25} = 6$$

66. A एक काम को 10 दिनों में कर सकता है उसी काम को B 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिल कर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे ?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

67. Aman and Rakesh together can do a task in 15 days, which Amit alone can do the same task 20 days. In how many days Rakesh alone can do it?

- A. 60
- B. 50
- C. 40
- D. 30

$$\frac{xy}{y-x} = \frac{15 \times 20}{20-15}$$

67. अमन और राकेश दोनों एक काम का हैं। जिसे अमन अकेला 20 दिनों में कर सकता है। राकेश अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पायेगा?

- A. 60
- B. 50
- C. 40
- D. 30

$$= \frac{15 \times 20}{5} = 60$$

68. The individual weight (in kgs) of 10 players of a team are as 54,55,56,57,58,59,60,61,62 and 63. Calculate the average weight (in kgs)?

- A. 56.5
- B. 57.5
- C. 58.5
- D. 59.5

$$\frac{58.5}{10} = 5.85$$

68. किसी टीम के 10 खिलाड़ियों का व्यक्तिगत भार (किलोग्राम) 54,55,56,57,58,59,60,61,62 और 63 है। औसत भार ज्ञात (किलोग्राम में)

- A. 56.5
- B. 57.5
- C. 58.5
- D. 59.5

$$\begin{array}{r} 54 \\ 55 \\ 56 \\ 57 \\ 58 \\ 59 \\ 60 \\ 61 \\ 62 \\ 63 \\ \hline 585 \end{array}$$

69. The mean weight of a group of five boys is 56 kg. The individual weights (in kg) of four of them are 52, 57, 55 and 60. Find the weight (in kg) of the fifth boy?

- A. 54
- B. 55
- C. 56
- D. 57

$$\frac{224 \times 5}{5} = 563$$

$$\begin{array}{r} 60 \\ 52 \\ 57 \\ 55 \\ \hline 224 \end{array}$$

69. एक समूह के पांच लड़कों का औसत भार 56 किलो ग्राम है। उन में से चार लड़कों का व्यक्तिगत भार (किलोग्राम में) 52, 57, 55 और 60 है। पांचवें लड़के का भार ज्ञात करें (किलोग्राम में)

- A. 54
- B. 55
- C. 56
- D. 57

$$\begin{array}{r} 54 \\ 55 \\ 56 \\ 57 \\ \hline 162 \end{array}$$

70. Mr. M has invested an amount of Rs 9000 for 5 years with a simple interest of 5% per annum. What will be interest amount?

- A. Rs 2000
- B. Rs 2150
- C. Rs.2250
- D. Rs.2350

$$S.I = \frac{P \times R \times T}{100} = \frac{9000 \times 5 \times 5}{100}$$

70. श्री M ने 9000 रुपये, 5 वर्षों के लिए 5% साधारण प्रति वर्ष पर लगाया। व्याज रकम क्या होगा?

- A. 2000 रुपये
- B. 2150 रुपये
- C. 2250 रुपये
- D. 2350 रुपये

71. How much time will it take for an amount of ₹500 to yield ₹25 as interest at 5% per annum of simple interest?

- A. 1 year
- B. 2 years
- C. 3 years
- D. 4 years

$$S.I = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$25 = \frac{500 \times 5 \times T}{100}$$

71. कितने समय में 500 रुपये पर व्याज 25 रुपये, 5% प्रति वर्ष साधारण व्याज की दर से आएगा?

- A. 1 वर्ष
- B. 2 वर्ष
- C. 3 वर्ष
- D. 4 वर्ष

72. Ms. B bought a cycle for Rs. 5000. For how much rupees should she sell it so as to gain 10%?

- A. Rs.5600
- B. Rs 5550
- C. Rs. 5525
- D. Rs. 5500

$$\frac{10}{100} \times 5000 =$$

72. कुमारी B ने रुपये 5000 रुपये में साइकिल खरीदा। 10 लाभ हेतु इसे कितने रुपये में बेचा जाये?

- A. 5600 रुपये
- B. 5550 रुपये
- C. 5525 रुपये
- D. 5500 रुपये

73. Mr. A has bought an item for Rs 500 and sells it for Rs 700. Calculate the profit percentage?

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

$$= \frac{200 \times 100}{500}$$

73. श्री A ने 500 रुपये में सामान खरीदा और 700 रुपये में दिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें ?

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

$$C.P = 500, S.P = 700$$

$$Profit = 200$$

$$= \frac{200 \times 100}{500}$$

74. In a class of 90 students, 40 % are girls. The number of boys in the class?

- A. 18
- B. 30
- C. 42
- D. None of the above

$$\frac{40}{100} \times 90 = 36$$

$$90 - 36 = 54$$

74. 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 % लड़कियां हैं। कक्षा में कि लड़के हैं?

- A. 18
- B. 30
- C. 42
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

75. In final exam of class XI there are 50 students, 20 % students failed. How many students passed to class XII?

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

$$\frac{20 \times 50}{100} = 10$$

75. कक्षा XI की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 20% विद्यार्थी असफल हुए। कितने विद्यार्थी कक्षा XII हेतु सफल हुए ?

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

76. Choose the alternative which is closely resembles the mirror image of the given combination.

MALAYALAM

- (1) MALAYALAM
- (2) MAJAYAJAM
- (3) MAAJAJAM
- (4) MAFAYAFAM

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

76. विकल्प का चुनाव करें जो समेकित रूप में दिए गए चित्र का छाया चित्र हो।

MALAYALAM

- (1) MALAYALAM
- (2) MAJAYAJAM
- (3) MAAJAJAM
- (4) MAFAYAFAM


- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

77. Select the alternative which represents three out of the five alternative figures which when fitted into each other would form a complete square.




- A. 124
- B. 345
- C. 123
- D. 135

77. पांच वैकल्पिक चित्रों में से तीन का चुनाव करें जो समेकित रूप में एक वर्ग का निर्माण करते हैं।




- A. 124
- B. 345
- C. 123
- D. 135

78. Identify the figure that completes the pattern.



- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

78. पैटर्न को पूर्ण करने वाले चित्र को पहचानें।




- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

79. How many rectangles are there in the figure given below?




- A. 16
- B. 18
- C. 20
- D. 22

79. निर्मांकित चित्र में कितने चतुर्भुज हैं ?




- A. 16
- B. 18
- C. 20
- D. 22

80. Find the number of triangles in the given figure.



- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

80. निर्मांकित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें ?



- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

81. Look at this series: 49, 49, 37, 37, 25, 25, ... What number should come next?

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

$$\begin{array}{r} 49 \\ - 37 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 \\ - 25 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ - 13 \\ \hline 12 \end{array}$$

81. सीरीज को देखें 49, 49, 37, 37, 25, 25, ... अगला क्या होनी चाहिए ?

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

82. What will be the next number?

4, 10, 5, 11, 6, 12, ...?

- A. 13
- B. 10
- C. 7
- D. 5

82. अगली संख्या क्या होगी ?

4, 10, 5, 11, 6, 12, ...?

- A. 13
- B. 10
- C. 7
- D. 5

83. A shopkeeper bought 300 apples and 200 mangos. He found 15% apples and 25% mangos were rotten. Find the percentage of fruits in good condition?

- A. 85%
- B. 84%
- C. 82%
- D. 81%

$$\frac{15}{100} \times 300 = 45$$

$$\frac{25}{100} \times 200 = 50$$

83. दुकानदार ने 300 सेब और 200 आम खरीदे। उसने पाया कि 15% सेब और 25% आम खराब हैं। ठीक फलों का प्रतिशत ज्ञात करें ?

- A. 85%
- B. 84%
- C. 82%
- D. 81%

$$= \frac{500 - 95}{405}$$

84. A man completes a journey in 5 hours. He travels first half of the journey at the rate of 13 km/hr and second half at the rate of 15 km/hr. Find the total journey in km?

- A. 89.6
- B. 79.6
- C. 69.6
- D. 59.6

$$D = S \times T$$

$$D = 13 \times 2.5 = 32.5$$

$$D = S \times T$$

$$\frac{32.5}{13} = 2.5$$

84. एक व्यक्ति यात्रा को 5 घंटों में पूरा करता है। वह प्रथम आध को 13 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय आधे 15 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है। कुल यात्रा दूरी (किलोमीटर) में ज्ञात करें ?

- A. 89.6
- B. 79.6
- C. 69.6
- D. 59.6

85. A cricketer has average score of 80 runs in eight innings. Find out how many runs are to be scored by him in the ninth inning to raise the average score to 81?

- A. 89
- B. 88
- C. 87
- D. 86

$$\frac{x}{9} = 80 \quad 9 \times 80$$

$$x = 720$$

85. एक क्रिकेट खिलाड़ी का आठ पारी में औसत स्कोर 80 रन है। औसत स्कोर को 81 रन पर लाने के लिए उस खिलाड़ी को नवमें पारी में कितने रन बनाने होंगे ?

- A. 89
- B. 88
- C. 87
- D. 86

$$\frac{720}{9} = 80$$

$$= \frac{720 + 10}{80} = 640$$

86. Calculate the final value of 40% of 60?

- A. 50
- B. 40
- C. 32
- D. 24

$$\frac{40}{100} \times 60$$

86. 60 के 40% का मान क्या होगा ?

- A. 50
- B. 40
- C. 32
- D. 24

$$\frac{81}{100} \times 60$$

$$= \frac{720 + 10}{80} = 89$$

87. 5 buses carry 250 passengers. How many passengers can be carried by 6 such buses?

- A. 300
- B. 350
- C. 400
- D. 450

$$\begin{array}{r}
 5 \rightarrow 250 \\
 6 \rightarrow ? \\
 \hline
 6 \times 250 \\
 \hline
 =
 \end{array}$$

87. 5 बसों में 250 सवारी यात्रा करते हैं। 6 बसों में कितनी सवारी यात्रा करेंगे ?

- A. 300
- B. 350
- C. 400
- D. 450

88. Look at this series: 3, 1, (1/3), (1/9), ... What number should come next?

- A. 1/12
- B. 1/27
- C. 1/49
- D. 1/81

88. सीरीज को देखें 3, 1, (1/3), (1/9)...? अगली संख्या क्या हो चाहिए ?

- A. 1/12
- B. 1/27
- C. 1/49
- D. 1/81

89. Ball is to Cricket as Shuttlecock is to?

- A. Football
- B. Badminton
- C. Hockey
- D. Kabaddi

89. गेंद का क्रिकेट से, तो शटलकॉक का?

- A. फुटबॉल
- B. बैडमिंटन
- C. हॉकी
- D. कबड्डी

90. Look at this series: IV, VI, VIII, X, _?, XIV, What number should fill the blank?

- A. XI
- B. XII
- C. XIII
- D. XV

XI XII

90. सीरीज को देखें: IV, VI, VIII, X, _?, XIV खाली स्थान क्या भरा जायेगा ?

- A. XI
- B. XII
- C. XIII
- D. XV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Look at this series: Z2, ?, X8, W16, V32, ... What number should fill the blank?

- A. Y3
- B. Y4
- C. U3
- D. U4

91. सीरीज को देखें: Z2, ?, X8, क्या भरा जायेगा ?



- A. Y3
- B. Y4
- C. U3
- D. U4

92



- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

92



- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

93. BMM, DOO, FQQ, , JUU

- A. GTT
- B. GSS
- C. HSS
- D. HTT



B

H

93. BMM, DOO, FQQ, , JUU



- A. GTT
- B. GSS
- C. HSS
- D. HTT

94



- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

94



- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

95. KCD, LEF, MGH, __?, OKL

- A. NJI
- B. PIJ
- C. PJI
- D. NIJ

NIJ

95. KCD, LEF, MGH, __?, OKL

- A. NJI
- B. PIJ
- C. PJI
- D. NUJ


96. Which word does NOT belong with the others?

- A. Second
- B. Hour
- C. Meter
- D. Minute

96. निम्नांकित में से कौन अन्य से सम्बंधित नहीं है?

- A. सेकंड
- B. घंटा
- C. मीटर
- D. मिनट

97. Count the number of triangles and squares in the given figure.




- A. 24 triangles and 3 rectangles
- B. 28 triangles and 3 rectangles
- C. 24 triangles and 5 rectangles
- D. None of the above

97. दिए गए चित्र में त्रिभुजों हुए चतुर्भुजों के संख्या को गणना करें।



- A. 24 त्रिभुज और 3 चतुर्भुज
- B. 28 त्रिभुज और 3 चतुर्भुज
- C. 24 त्रिभुज और 5 चतुर्भुज
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं


98. Choose the figure which is different from the rest.



(1) (2) (3) (4) (5)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5


98. चित्र का चुनाव करें जो अन्यो से भिन्न हो।



(1) (2) (3) (4) (5)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

99. Choose the figure which is different from the rest.



(1) (2) (3) (4) (5)

A. 1

B. 2

C. 3

~~D. 4~~

99. चित्र का चुनाव करें जो अन्यो से भिन्न हो।



(1) (2) (3) (4) (5)


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

100. Choose the figure which is different from the rest.



(1) (2) ~~(3)~~ (4) (5)


A. 1

B. 2

~~C. 3~~

D. 4

100. चित्र का चुनाव करें जो अन्यो से भिन्न हो।



(1) (2) (3) (4) (5)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4
